

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त 2014—भाद्र 6, शक 1936

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2014

आदेश

क्र. 16303-वि.स.-स्था.-2014.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-3-1-3-08, दिनांक 11 अप्रैल, 2008 के परिपालन में मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय स्थापना में वेतनमान रुपये 6500—10500 एवं पुनरीक्षित पी.बी-2-9300—34800+4200 ग्रेड पे में स्वीकृत मार्शल के पद को राजपत्रित श्रेणी-2 घोषित किया जाता है.

आदेश से,
हस्ता./-
(ए. पी. सिंह)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.